



## B.COM. 2<sup>nd</sup> Year Syllabus


| विषय (Subjects)                                                                                                                   | प्रश्न-पत्र (Papers)                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. लेखा समूह (Accounts Group)<br>अनिवार्य विषय (Compulsory Subject)                                                               | 1. निगमीय लेखांकन Corporate Accounting            |
|                                                                                                                                   | 2. परिव्यय लेखांकन Cost Accounting                |
| 2. प्रबंध समूह (Management Group)<br>अनिवार्य विषय (Compulsory Subject)                                                           | 1. सांख्यिकी के सिद्धांत Principles of Statistics |
|                                                                                                                                   | 2. प्रबंध के सिद्धांत Principles of Management    |
| 3. . व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह (Applied Economics Group)/<br>व्यावसायिक पाठ्यक्रम समूह<br>वैकल्पिक विषय (Optional Subject Group) | 1. भारतीय कम्पनी अधिनियम Indian Company Act       |
|                                                                                                                                   | 2. बैंकिंग एवं बीमा Banking & Insurance           |


नोट— व्यावसायिक पाठ्यक्रम के दोनो प्रश्नपत्रों को वैकल्पिक समूह, व्यवहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) के स्थान पर लिया जा सकता है।


  
Dr. S.K. Pahwa  
(Chairman)

  
Dr. N.L. Gupta  
(Member)

  
Dr. Pavan Mishra  
(Member)

  
Dr. R.K. Vipat  
(Member)

  
Dr. Sachin Sharma  
(Member)

  
Dr. Pushplata Chouksey  
(Member)

  
Dr. I.K. Yadav  
(Member)

  
Dr. R.K. Patil  
(Member)

(15)


उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन  
स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित  
**Department of Higher Education, Govt. Of M.P**  
B.com Year wise syllabus as recommended by Central Board of Studies

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Session / सत्र                               | 2018-19                                           |
| Class / कक्षा                                | B.Com / बी. काम                                   |
| Year / वर्ष                                  | Second / द्वितीय                                  |
| Subject / विषय                               | Accounting Group / लेखांकन समूह प्रश्न पत्र प्रथम |
| Title of the paper / प्रश्नपत्र का शीर्षक    | Corporate Accounting / निगमीय लेखांकन             |
| Compulsory / अनिवार्य या Optional / वैकल्पिक | Compulsory / अनिवार्य Paper – I                   |
| Max. Marks / अधिकतम अंक                      | 42 ½                                              |


**Particulars / विवरण**


|         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit -1 | Final Accounts of Companies (Including calculation of managerial remuneration). Declaration of dividend, Profit and Loss Appropriation Account and disposal of Profits. Calculation of Pre and Post incorporation Profit / Loss. |
| इकाई—1  | कम्पनियों के अंतिम लेखे (प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना सहित) लाभांश की घोषणा। लाभ-हानि नियोजन खाता एवं लाभों का निपटारा। समामेलन के पूर्व एवं पश्चात् के लाभ-हानि की गणना।                                                        |
| Unit -2 | Valuation of Goodwill and Shares, Methods of Valuation. Accounts of Public Utility Companies (Electricity Company).                                                                                                              |
| इकाई—2  | ख्याति और अंशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की विधियाँ। सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों के खाते (विद्युत कम्पनी)।                                                                                                                        |
| Unit -3 | Meaning of Holding and Subsidiary Company. Preparation of Consolidated Balance Sheet of a holding company with one subsidiary company, Accounting for liquidation of companies                                                   |
| इकाई—3  | सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनी का अर्थ। सूत्रधारी कम्पनी का समेकित चिट्ठा तैयार करना (एक सहायक कम्पनी के साथ), कम्पनियों के परिसमापन के लिए लेखांकन।                                                                                 |
| Unit -4 | Accounting for Merger as per AS 14. Internal Reconstruction of a company as per Indian Accounting Standard 14 (Excluding inter company holdings and External reconstruction scheme)                                              |
| इकाई—4  | लेखा मानक 14 के अनुसार कम्पनियों सम्मिश्रण के लिए लेखांकन। आंतरिक पुनःनिर्माण, (अर्तकंपनी सूत्रधारी एवं बाह्य पुनःनिर्माण को छोड़कर)                                                                                             |
| Unit -5 | Accounts of Banking Companies, Accounts of Insurance Companies with claim settlement.                                                                                                                                            |
| इकाई—5  | बैंकिंग कम्पनियों के खाते बीमा कम्पनियों के लेखे – दावा समझौते के साथ                                                                                                                                                            |


|    |                               |                                                                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | अग्रवाल महेश                  | निगमीय लेखे, रामप्रसाद एंड संस, भोपाल                                       |
| 2. | शर्मा, शाह, मंगल अग्रवाल, जैन | आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (जयपुर)                                 |
| 3  | Sharda Gagwar                 | Himalaya Publishing House, Mumbai                                           |
| 4  | Mangal Ramesh                 | Company Accounts, Universal Publication, Agra                               |
| 5  | Gupta R.L. Radhaswamy M.      | Company Accounts, Sultan Chand and Sons,                                    |
| 6  |                               | New Delhi.                                                                  |
|    | Maheshwari S.N.               | Corporate Accounting Vikas Publishing                                       |
| 7  |                               | House, New Delhi                                                            |
|    | Modi, Oswal and S.K. Khatik   | Corporate Accounting in Hindi and English (both) College Book House, Jaipur |
| 8  | Mehta, Brahmabhatt            | Coprorate Accounting, Devi Ahilya Prakashan, Indore                         |
| 9  | Jain and Narang               | Kalyani Publishers , New Delhi                                              |
| 10 | Shukla S.M.                   | Sahitya Bhavan Publication, Aagra                                           |

  
Dr. S.K. Pahwa  
(Chairman)

  
Dr. N.L. Gupta  
(Member)

  
Dr. Pavan Mishra  
(Member)

  
Dr. R.K. Vipat  
(Member)

  
Dr. Sachin Sharma  
(Member)

  
Dr. Pushplata Chouksey  
(Member)

  
Dr. L.K. Yadav  
(Member)

  
Dr. R.K. Patil  
(Member)

(15)

उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन  
स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित  
**Department of Higher Education, Govt. Of M.P**  
B.com Year wise syllabus as recommended by Central Board of Studies


|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Session / सत्र                               | 2018-19                                        |
| Class / कक्षा                                | B.Com / बी. काम                                |
| Year / वर्ष                                  | Second / द्वितीय                               |
| Subject / विषय                               | Accounts Group / लेखा समूह प्रश्न पत्र द्वितीय |
| Title of the paper / प्रश्नपत्र का शीर्षक    | Cost Accounting / परिव्यय लेखांकन              |
| Compulsory / अनिवार्य या Optional / वैकल्पिक | Compulsory / अनिवार्य Paper – II               |
| Max. Marks / अधिकतम अंक                      | 42 ½                                           |

**Particulars / विवरण**


|         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit -1 | Cost: Meaning, Concept and Classification. Elements of Cost, Nature & Importance, Material Costing. Methods of Valuation of Material issue. Concept and material control and its techniques. Labour Costing, Methods of Wages Payments. |
| इकाई-1  | लागत :- अर्थ, अवधारणा एवं वर्गीकरण। लागत के तत्व, प्रकृति एवं महत्व, सामग्री लागत लेखांकन, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की विधियां, सामग्री नियंत्रण अवधारणा एवं इसकी तकनीके, श्रम लागत लेखांकन, मजदूरी भुगतान की पद्धतियां।            |
| Unit -2 | Unit Costing, Preparation of Cost Sheet and Statement of Cost (Including calculation of tender price) Overhead costing, (Including calculation of machine hour rate.)                                                                   |
| इकाई-2  | इकाई लागत लेखांकन, लागत पत्र एवं लागत विवरण का निर्माण (निविदा मूल्य की गणना सहित) उपरिव्यय लेखांकन (मशीन घंटा दर की गणन सहित)                                                                                                          |
| Unit -3 | Contract and Job costing, Operating costing. (Transport Cost)                                                                                                                                                                           |
| इकाई-3  | ढेका एवं उपकार्य लागत लेखांकन, परिचालन लागत लेखांकन (परिवहन लागत)                                                                                                                                                                       |
| Unit -4 | Process Costing (Including Inter process profit and Reserve). Reconciliation of Cost and Financial Accounts                                                                                                                             |
| इकाई-4  | प्रक्रिया लेखांकन, (अन्तर प्रक्रिया लाभ एवं संचय सहित)। लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान।                                                                                                                                           |
| Unit -5 | Marginal Costing- Profit - Volume Ratio, Break-Even Point, Margin of Safety, Application of Break-even Analysis Standard Costing, and variance analysis (Material and Labour only)                                                      |
| इकाई-5  | सीमांत लागत लेखांकन – लाभ-मात्रा अनुपात, समविच्छेद बिन्दु, सुरक्षा सीमा, समविच्छेद विश्लेषण के प्रयोग। प्रमाप लेखे एवं विचरण विश्लेषण (केवल सामग्री एवं श्रम)                                                                           |


Suggested Reading -


|    |                           |                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jain & Narang             | Kalyani Publishers New Delhi (Both Medium)                                 |
| 2. | Arora M.N.                | Cost Accounting, Principles and Practice, Vikas New Delhi.                 |
| 3  | Maheshwari S.N.           | Advance Problems and Solutions in cost accounting: Sultan Chand, New Delhi |
| 4. | Agrawal M.L. S.B. Agra    | Cost Accounting (In Hindi)                                                 |
| 5. | Jain B.K. Prof. Jain N.C. | Cost Accounting and in English Ramesh Book Depot, Jaipur.                  |
| 6  | Mehta, Brahmhatt          | Cost Accounting Devi Ahilya Prakashan, Indore                              |


  
Dr. S.K. Pahwa  
(Chairman)

  
Dr. N.L. Gupta  
(Member)

  
Dr. Pavan Mishra  
(Member)

  
Dr. R.K. Vipat  
(Member)

  
Dr. Sachin Sharma  
(Member)

  
Dr. Pushplata Chouksey  
(Member)

  
Dr. I.K. Yadav  
(Member)

  
Dr. R.K. Patil  
(Member)

उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन  
स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित

**Department of Higher Education, Govt. Of M.P**  
**B.com Year wise syllabus as recommended by Central Board of Studies**


|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Session / सत्र                               | 2018-19                                           |
| Class / कक्षा                                | B.Com / बी. काम                                   |
| Year / वर्ष                                  | Second / द्वितीय                                  |
| Subject / विषय                               | Management Group / प्रबंधन समूह प्रश्न पत्र प्रथम |
| Title of the paper / प्रश्नपत्र का शीर्षक    | Principles of Statistics / सांख्यिकी के सिद्धांत  |
| Compulsory / अनिवार्य या Optional / वैकल्पिक | Compulsory / अनिवार्य <b>Paper – I</b>            |
| Max. Marks / अधिकतम अंक                      | 42 ½                                              |

**Particulars / विवरण**


|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit -1 | Statistics – Meaning and Definitions, Significance, Scope and Limitations of Statistics. Statistical investigation. Process of Data Collection, Primary and Secondary Data, Methods of Sampling, Preparation of Questionnaire, Classification and Tabulation of Data, Preparation of Statistical Series and its types. |
| इकाई-1  | सांख्यिकी - आशय, परिभाषा एवं महत्व, क्षेत्र एवं सीमाएँ, सांख्यिकीय अनुसंधान। समंक संकलन की प्रक्रिया, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक, निदर्शन की रीतियाँ, प्रश्नावली की रचना, समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन, सांख्यिकीय श्रेणियों की रचना एवं प्रकार।                                                                     |
| Unit -2 | Measurement of Central Tendency- Mean, Median, Quartile, Mode, Geometric Mean and Harmonic Mean                                                                                                                                                                                                                        |
| इकाई-2  | केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप-माध्य, मध्यका, चतुर्थक, भूयिष्ठक, गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य।                                                                                                                                                                                                                         |
| Unit -3 | Dispersion and Skewness. Analysis of Time Series -- Meaning, Importance, Components, Decomposition of Time Series, Measurement of Long Term Trends, Measurement of Cyclical and Irregular Fluctuations.                                                                                                                |
| इकाई-3  | अपकिरण एवं विषमता। काल श्रेणी का विश्लेषण – अर्थ, महत्व, संघटक, काल श्रेणी का विघटन, दीर्घकालीन उपनति के माप, चक्रीय व अनियमित उच्चावचनों के माप।                                                                                                                                                                      |
| Unit -4 | Correlation-Meaning, Definitions, Types and Degree of Correlation, Methods of Correlation. Regression Analysis-Meaning, Uses, Difference between Correlation and Regression, Linear Regression, Regression Equations, Calculation of Coefficient of Regression.                                                        |
| इकाई-4  | सहसम्बन्ध- आशय, परिभाषा, प्रकार, सहसम्बन्ध का परिमाण, सहसम्बन्ध की विधियाँ। प्रतीपगमन विश्लेषण- आशय, उपयोग, सहसम्बन्ध एवं प्रतीपगमन में अंतर, रेखीय प्रतीपगमन, प्रतीपगमन समीकरण, प्रतीपगमन गुणांक का परिकलन।                                                                                                           |
| Unit -5 | Index Number- Meaning, Characteristics, Importance and Uses. Construction of Index Numbers- Cost of living Index, Fisher's Ideal Index Number. Diagrammatic and Graphic presentation of Data                                                                                                                           |
| इकाई-5  | निर्देशांक - अर्थ, विशेषताएँ, महत्व एवं उपयोग। निर्देशांक की रचना - जीवन निर्वाह निर्देशांक, फिशर का आदर्श सूचकांक। समंकों का चित्रमय एवं रेखीय प्रदर्शन।                                                                                                                                                              |

Suggested Reading for Principles of Statistics संदर्भ : "सांख्यिकी के सिद्धांत"


|    |                      |                                                                     |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | ओसवाल एवं अग्रवाल    | सांख्यिकी के सिद्धान्त, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (जयपुर) |
| 2. | अग्रवाल एवं सिंह     | सांख्यिकी के सिद्धान्त, रामप्रसाद एन्ड संस                          |
| 3  | Digamber Patri       | Kalyani Publishers, New Delhi                                       |
| 4  | Oswal, Sahu          | Business Statistics, Ramesh Book Depot, Jaipur                      |
| 5  | Gupta B.N.           | Statistics, Sahitya Bawan, Agra (Hindi & English)                   |
| 6  | Gupta B.N. & Silawat | Statistics, S.B.P.D, Agra                                           |
| 7  | Nagar K.N.           | Statistics, Meenakshi Prakashan (Hindi & English)                   |
| 8  | Shukla and Sahay     | Sahitya Bhavan Publication, Aagra (Hindi & English)                 |
| 9  | Gupta S.P.           | Statistics, S. Chand Delhi (Hindi & English)                        |
| 10 | R.P. Varshaneya      | Statistics, Jawahar Prakashan, Agra                                 |


  
Dr. S.K. Pahwa  
(Chairman)

  
Dr. N.L. Gupta  
(Member)

  
Dr. Pavan Mishra  
(Member)

  
Dr. R.K. Vipat  
(Member)

  
Dr. Sachin Sharma  
(Member)

  
Dr. Pushplata Chouksey  
(Member)

  
Dr. I.K. Yadav  
(Member)

  
Dr. R.K. Patil  
(Member)

उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन  
स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित

(21)

**Department of Higher Education, Govt. Of M.P**  
**B.com Year wise syllabus as recommended by Central Board of Studies**

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Session / सत्र                               | 2018-19                                       |
| Class / कक्षा                                | B.Com / बी. काम                               |
| Year / वर्ष                                  | Second / द्वितीय                              |
| Subject / विषय                               | Management Group / प्रबंध समूह                |
| Title of the paper / प्रश्नपत्र का शीर्षक    | Principles of Management / प्रबंध के सिद्धांत |
| Compulsory / अनिवार्य या Optional / वैकल्पिक | Compulsory / अनिवार्य Paper – II              |
| Max. Marks / अधिकतम अंक                      | 42 ½                                          |

**Particulars / विवरण**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit -1 | Management-Meaning, Nature and Importance, Functions and Principles of Management, Management V/s Administration.<br>Development of Managerial Thought, Contribution by Taylor and Fayol<br>Management by Exceptions and Management by objectives social responsibility of management. |
| इकाई-1  | प्रबंध-अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के कार्य एवं सिद्धांत, प्रबंध बनाम प्रशासन। प्रबंधकीय विचारधारा का विकास, टेलर एवं फेयोले का योगदान। अपवाद द्वारा प्रबंध, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व।                                                             |
| Unit -2 | Planning – Meaning- Nature & Importance, Elements, types, Process of Planning, Barriers to Effective Planning,. Forecasting- Need & Techniques. Decision Making, Concept and Process, Coordination.                                                                                    |
| इकाई-2  | नियोजन – अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, तत्व, प्रकार, नियोजन की प्रक्रिया, प्रभावी नियोजन की बाधाएँ।<br>पूर्वानुमान, महत्व एवं तकनीके।<br>निर्णयन – अवधारणा एवं प्रक्रिया, समन्वय                                                                                                            |
| Unit -3 | Organizing: Meaning, Importance and Principles, Span of Management, Centralization and Decentralization, forms of Organization, Staffing: Nature & Scope of Staffing, Manpower Planning, Selection & Training, Performance Appraisal, Delegation of Authority.                         |
| इकाई-3  | संगठन – अर्थ, महत्व एवं सिद्धांत, प्रबंध का विस्तार, केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण, संगठन के प्रकार, स्टाफिंग – प्रकृति एवं क्षेत्र, मानव संसाधन नियोजन, चयन एवं प्रशिक्षण, निष्पादन, मूल्यांकन, सत्ता का भारोपण।                                                                    |
| Unit -4 | Motivation: Concept, Importance Characteristics, Classification of motives - Theories of Motivation. Leadership - Concept and Leadership styles, Leadership Theories.                                                                                                                  |
| इकाई-4  | अभिप्रेरण – अवधारणा, महत्व, विशेषताएँ, वर्गीकरण, सिद्धांत,<br>नेतृत्व – अवधारणा एवं नेतृत्व शैलियाँ, नेतृत्व के सिद्धांत।                                                                                                                                                              |
| Unit -5 | Direction- Concept, Nature, Importance Process and Methods. Controlling - Concept, Nature, Importance, Process of controlling, Control Technique                                                                                                                                       |
| इकाई-5  | निर्देशन – अवधारणा, प्रकृति, महत्व, प्रक्रिया एवं पद्धतियाँ<br>नियंत्रण – अवधारणा, प्रकृति, नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रण तकनीके।                                                                                                                                                       |

## Suggested Reading -

|    |                 |                                                                         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | नौलखा आर.एल.    | प्रबंध के सिद्धांत, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली (जयपुर)         |
| 2. | शुक्ला एस एम    | प्रबंध के सिद्धांत, साहित्य भवन, आगरा                                   |
| 3. | बी. के. अग्रवाल | प्रबंध के सिद्धांत, रामप्रसाद एंड संस, भोपाल                            |
| 4. | Ramasamy T.     | Principle of Management, Himalya Publishing House, Mumbai (Both Medium) |
| 5. | Gupta & Sharma  | Principle of Management, Kalyani Publishers, New Delhi (Both Medium)    |
| 6. | Sen & Gupta     | Principle of Management, Vikash Publishing House, New Delhi             |

banj

in

Amish

Phy

22

उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन  
स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित

(23)


**Department of Higher Education, Govt. Of M.P**  
**B.com Year wise syllabus as recommended by Central Board of Studies**

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Session / सत्र                               | 2018-19                                          |
| Class / कक्षा                                | B.Com / बी. काम                                  |
| Year / वर्ष                                  | Second / द्वितीय                                 |
| Subject / विषय                               | Applied Economics Group / व्यावहारिक अर्थशास्त्र |
| Title of the paper / प्रश्नपत्र का शीर्षक    | Indian Company Act / भारतीय कम्पनी अधिनियम       |
| Compulsory / अनिवार्य या Optional / वैकल्पिक | Compulsory / अनिवार्य Paper – I                  |
| Max. Marks / अधिकतम अंक                      | 42 ½                                             |


**Particulars / विवरण**


|         |                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit -1 | Company-Defination, Characteristics, Types of Company. Formation of Company, Promotion, Incorporation and Commencement of Business.                                                             |
| इकाई—1  | कम्पनी – परिभाषा, विशेषताएँ, कम्पनी के प्रकार, कंपनी का निर्माण : प्रवर्तन, समामेलन एवं व्यवसाय का प्रारंभ।                                                                                     |
| Unit -2 | Detailed study of Memorandum of Association, Articles of Association and Prospectus.                                                                                                            |
| इकाई—2  | पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर्नियम एवं प्रविवरण का विस्तृत अध्ययन।                                                                                                                             |
| Unit -3 | Shares - Share Capital, Types of Shares, Transfer and Transmission of shares. Shareholders v/s Members of the company. Debentures - Meaning and Types, Borrowing powers, Mortgages and Charges. |
| इकाई—3  | अंश – अंशपूजी, अंशों के प्रकार, अंशों का हस्तांतरण एवं अभिहस्तांकन। अंशधारी बनाम कम्पनी के सदस्य ऋणपत्र – आशय एवं प्रकार, ऋण लेने का अधिकार, बंधक एवं प्रभार।                                   |
| Unit -4 | Directors - Managing Directors, Whole time Director, Their qualifications, Appointment, Powers, Duties and Liabilities. Company-Meetings : Types, Quorum, Voting, Resolution and Minutes.       |
| इकाई—4  | संचालक – प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक – योग्यताएँ, नियुक्ति, अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व कंपनी की सभाएँ – प्रकार, कार्यवाहक संख्या (गणपूर्ति), मतदान, प्रस्ताव एवं सूक्ष्म।               |
| Unit -5 | Majority Powers and Minority rights, Prevention of oppression and mismanagement, Winding - up of companies - Types and Methods.                                                                 |
| इकाई—5  | बहु संख्यक शक्तियाँ और अल्पसंख्यक के अधिकार, अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम, कम्पनियों का समापन—प्रकार एवं विधियाँ।                                                                              |

|    |                         |                                                        |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Shukla S.M.             | Company Adhiniyam S/B, Agra (Hindi & English)          |
| 2. | Nowlkha Jain & Tripathi | Company Law, Universal - Agra (Hindi)                  |
| 3. | Dr. Bajpai & Jain       | Company Law, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal         |
| 4. | Chawla & Garg           | Company Law & S. Vikas Publishing House. Chand, Delhi. |
| 5. | Bagrial A.K.            | Company Law, New Delhi                                 |
| 6. | R.N. Nolakha            | Company Law, R.B.D Jaipur                              |


  
Dr. S.K. Pahwa  
(Chairman)

  
Dr. N.E. Gupta  
(Member)

  
Dr. Pavan Mishra  
(Member)

  
Dr. R.K. Vipat  
(Member)

  
Dr. Sachin Sharma  
(Member)

  
Dr. Pushplata Chouksey  
(Member)

  
Dr. I.K. Yadav  
(Member)

  
Dr. R.K. Patil  
(Member)

उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन  
स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित

(25)

**Department of Higher Education, Govt. Of M.P**  
**B.com Year wise syllabus as recommended by Central Board of Studies**

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Session / सत्र</b>                               | <b>2018-19</b>                                          |
| <b>Class / कक्षा</b>                                | <b>B.Com / बी. काम</b>                                  |
| <b>Year / वर्ष</b>                                  | <b>Second / द्वितीय</b>                                 |
| <b>Subject / विषय</b>                               | <b>Applied Economics Group / व्यावहारिक अर्थशास्त्र</b> |
| <b>Title of the paper / प्रश्नपत्र का शीर्षक</b>    | <b>Banking &amp; Insurance / बैंकिंग एवं बीमा</b>       |
| <b>Compulsory / अनिवार्य या Optional / वैकल्पिक</b> | <b>Compulsory / अनिवार्य Paper – II</b>                 |
| <b>Max. Marks / अधिकतम अंक</b>                      | <b>42 ½</b>                                             |

**Particulars / विवरण**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit -1 | Principles of Banking: Definition of Bank, Creation of Money : Present Structure of Commercial Banks in India. Principles of Management in Banks : Managerial Functions in Bank Indian Banking System - Features, Classification of Banking Institutions. Reserve Bank of India - Functions, Control of Credit by RBI, Powers of RBI. |
| इकाई—1  | बैंकिंग के सिद्धांत : बैंक की परिभाषा, मुद्रा का सृजन, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की वर्तमान संरचना। बैंकों में प्रबंध के सिद्धांत – बैंकों में प्रबंधकीय कार्य। भारतीय बैंकिंग पद्धति – विशेषताएं, बैंकिंग संस्थाओं का वर्गीकरण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया – कार्य, रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, रिजर्व बैंक की शक्तियां।             |
| Unit -2 | Management of Deposits and Advances, Deposit Mobilization, Classification and Nature of Deposit Accounts, Advances, Lending Practice, Types of advances. Investment Management : Nature of Bank Investment, Liquidity and Profitability. Cheques, Bills and their Endorsement, Government Securities. Procedure of E-Banking.         |
| इकाई—2  | जमा एवं अग्रिमों का प्रबंधन, जमाओं की गतिशीलता, जमा खातों का वर्गीकरण एवं प्रकृति, अग्रिम, उधार व्यवहार, अग्रिम के प्रकार, बैंक विनियोग प्रबंध:—बैंक विनियोग की प्रकृति, तरलता एवं लाभदायकता। चैक, बिल एवं उनका पृष्ठांकन। शासकीय प्रतिभूतियां। ई-बैंकिंग प्रक्रिया                                                                   |
| Unit -3 | Insurance - Meaning, Need, Types, Functions and Principles. IRDA its function and Importance Insurance as Social Security Tool. Insurance and Economic Development.                                                                                                                                                                   |
| इकाई—3  | बीमा – अर्थ, आवश्यकता, प्रकार, कार्य एवं सिद्धांत। आई.आर.डी.ए. – कार्य एवं महत्व बीमा एक समाजिक सुरक्षा उपकरण, बीमा और आर्थिक विकास                                                                                                                                                                                                   |
| Unit -4 | Life Insurance: Introduction, Need, Importance, Elements of Contracts and Life Insurance Contract. Settlement of life Insurance Claims.                                                                                                                                                                                               |
| इकाई—4  | जीवन बीमा: परिचय, आवश्यकता, महत्व, अनुबंध के सारतत्व एवं जीवन बीमा अनुबंध। जीवन बीमा दावों का निराकरण।                                                                                                                                                                                                                                |
| Unit -5 | Organization of General Insurance Corporation and its Subsidiary Companies and its Functions Settlement of General Insurance Claims. Health Insurance Need Scope & Importance.                                                                                                                                                        |
| इकाई—5  | सामान्य बीमा निगम का संगठन एवं इसकी सहायक कम्पनियां एवं उनके कार्य। सामान्य बीमा दावों का निपटारा, स्वास्थ्य बीमा – आवश्यकता क्षेत्र एवं महत्व                                                                                                                                                                                        |

## Suggested Reading -

|    |                            |                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. R.L. Nolakha           | Principles of Insurance, R.B.D. Jaipur (Hindi & English) |
| 2. | डॉ. रमेश मंगल              | बीमा के तत्व                                             |
| 3. | Dr. Balchandra Shrivastava | Principles of Insurance                                  |
| 4. | H.C. Sharma                | Banking Law and Practise (Sahitya Bhawan)                |
| 5. | Dr. Maliram                | Banking Law and Practise                                 |
| 6. | Dr. V.C. Sinha             | Banking Law and Practise                                 |
| 7. | Gupta B.P.                 | Banking in India, R.B.D. Jaipur                          |
| 8. | डॉ. पवन मिश्रा             | बीमा के सिद्धांत, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी                   |
| 9. | Dr. Shakti Prathban        | Principles of Insurance, Himalaya Publication            |



Dr. S.K. Pahwa  
(Chairman)



Dr. N.L. Gupta  
(Member)




Dr. Pavan Mishra  
(Member)



Dr. R.K. Vipat  
(Member)



Dr. Sachin Sharma  
(Member)



Dr. Pushplata Chouksey  
(Member)



Dr. I.K. Yadav  
(Member)



Dr. R.K. Patil  
(Member)